

DP WIRES LIMITED

- +91 88789 31861, +91 7412 261130
- info@dpwires.co.in, investors@dpwires.co.in
- www.dpwires.co.in

Date: - November 11, 2023

To,

National Stock Exchange of India Limited,

Listing Department Exchange Plaza, C-1 Block-G, Bandra-Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai-400051

To,

Bombay Stock Exchange,

Listing Department, P.J. Tower, Dalal Street ,Fort, Mumbai-400001

Dear Sir / Madam,

REF.: ISIN - INE864X01013; NSE Code –DPWIRES, BSE Code-543962

Sub: Newspaper Publication of the Unaudited Financial Results for the quarter and Half Year ended 30th September 2023

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Please find attached the newspaper publication of the Unaudited Financial Results (Standalone) for the quarter ended 30th September 2023 published in Naiduniya (Vernacular language) and English newspaper Business Standard on 11 November 2023.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For DP Wires Limited

Krutika Maheshwari Company Secretary and Compliance officer



CIN: L27100MP1998PLC029523

Registered Office

16 - 18A, Industrial Area, Ratlam, Madhya Pradesh, India - 457001

लोकतंत्र सशक्त वनाने के लिए वोट दें



म तदान में हर स्वक्ति अपने तदान म हर स्थावत अपन विवेक का उपयोग कर कतंत्र को सशक्त बनाने में इम भूमिका निभाता है। कर्ट् ग मतदान को जरूरी नहीं तेते और और बीट नहीं मानत और और वीट नजे उल्लेत हैं। इसके अलावा कुछ लोग बिना सीचे समझे बीट देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस तरह का गैर्सजम्मेदाराना व्यवहार करता है तो उसको वह अधिकार नहीं है कि वह किसी अधिकार नहीं है कि यह किसी नेता, जनअंतिनिधि या सरकार की किसी भी काम के लिय एक्ता ठडराए। मन्दान का सह्युवयोग देशांत में करें। श्रुद्धिजीबी होने के नाते रख लोग अपने नाता प्रायोग करें और 17 न्वंबर को मन्दान अवस्य करें। आपके आस्पास के जो बर्ग मिश्रित नाती हैं, उसे मनावान करने के लिए प्रोस्साहित करें। मनदान करने के लिए प्रास्साहित करें।

भारतम् करन का लए शासन का हर प्रोफेशन में काम करने वाले व्यक्ति, शासकीय या अशासकीय कांचरारी के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो कराव्यविमुख भी न हो पए और इस यज्ञ में अपनी आहुति दे। विशेष रूप से चिकात्सक पेशो विशेष रूप स न्याकात्सक पश् से जुड़े लोग जैसे डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ के लिए कुछ ऐसे इंतजाम हो कि ये किसी स्थान पर सह्लियत गरे तरीके से महादान करने जा सकें। यदि माजान करने जा सके। यदि संभव हो तो अस्पतालों में भी माजान केंद्र बनाएं। जो लोग बिन कारण के माजान नहीं बनते हैं उसना ऐसे लेगी विकित्त कर उन्हें गामन से मिलने वाली कुछ शास्त्रकों चीतानी जारी कर दी जाए तो स्कारनक परिणाम आएंगे और माजान का प्रतिशत भी बहुँगा। -हा एम के सारास्त्रम, बंधे -डा. एम के सारस्वत, पूर्व डीएमई व डीन एमजीएम मेडिकल कालेज

सरवन में निकला फ्लैग मार्च



सरदन में पुलिस दल द्वारा निकाला गया

सरबन । विभानसभा चुनाव क महेनजर ग्राम में शुक्रवार के सेलाना एसडीओपी हंडला मीर्य, सरवन ब्याना प्रचारी नीलम प्राँगड़ तथा प्रचान आरक्षक शैलेंद्रसिंह सोलंकी सिहत ब्याना स्टाफ हारा गांव में क्लीण मार्च निकाला गया। इसके अलावा गांव अमरगढ़, कुंडा, बेड्दा में भी जीपी फोर्स द्वारा फ्लैग

जिले की चार सीटों पर होगा त्रिकोणीय संघर्ष

सियासत • भाजपा से एक भी वागी मैदान में नहीं, कांग्रेस से आलोट विधानसभा में दिखा रहे दम

कांग्रेस में मुकावला

इस सीट पर आढ़ प्रत्याशी मैदान में हैं। वर्तमान में इस सीट पर भाजपा से वेतन्य

काश्यप विधायक है। भाजपा ने लगातार तैसरी बार काश्चप को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से पारस सकतेवा क्वा दूसरी बार मैदान में है। दादा इस सीट से

2008 में निर्दलीय रूप से वनाव जीत

वुक्रि । इनक्र अलाख बस्ता क जहीरउद्दीन, सचा से आकरीन बी, यूनेपा से मोहम्मद जफर, भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी से विजयसिंह यादव, निर्देलीय

अरुण राद, मोहनसिंह सोलंकी मैदान में

डटे हुए हैं । यहां १०७८१४ पुरुष, १०९२५४ महिला, पांच अन्य सहित कुल २१७०७३ मतदाता हैं।

चुके हैं । इनके अलावा बसपा के

जिले में विधानसभा चुनाव के प्रचार-प्रसार का रंग पूरी तरह चढ़ गया है। प्रचार-प्रसार की रफ्तार दिन-च-दिन तेज होती जा रही है। जिले की पांच में से एकमात्र हिन-ज-पदन जंडा होता जो रहा है। जिले को पाँच में से एकमात्र राज्ञाम शहर विधानसभा सीट पर कोस-पाजाम में मुकाजले की विधान सहार है, वहीं राज्ञाम प्रामीण, सेलाना, जावारा और आलोट विधानसभा सीट पर विकाणीय संपर्च से हुनाव रोचक मोड़ पर आ ए हैं। इन सीटों पर उंटर कम किस करवार बैठ जाए डंट कर किस करवट देंद जाए, कुछ कका कों जा सकता चुनाव में सभी प्रत्याशी आरोप-प्रत्यारोगें को बीकारों के साथ अपनी-अपनी इराली, अपना-अपना या अलाप रहे हैं। मतदाता भी जनसंघक के लिए आने बाल से मी प्रत्यारोगेंं का स्थागत-सत्कार कर रहे हैं। इससे मतदाताओं की टीह लेना भी मुख्किल जान पढ़ रहा हैं। जिले को पाँची विधानसमा सीट रतलाम प्रामीण, रतलाम शहर,

ाजात का याचा विधानसभा सार रतलाम प्रामण, रतलाम शहर, सैलाना, जाक्या और आलोट सोट पर कुल 40 प्रत्याशों मैदान में हैं। जनसंपर्क के दौरान ज्यादातर स्थानों पर प्रत्याशियों का स्थानत-सत्कार किया जा रहा है, क्यों करे समस्या वाले क्षेत्रों में जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशियों को रहवासियों के आक्रोश का सामना भी करना पड



219 रतलाम ग्रामीण अजना कांग्रेस-भाजण को जगस की बनौती इस लीट पर पांच प्रत्याशी मैदान में है। वर्तमान में इस सीट पर भाजपा के दिली मकवाना विधायक है। भाजपा ने जहां पूर्व विघायक मथुरालाल डामर को तीसरी बार मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस सं बार मदान न उतारा है, की क्रमास स नर चेहरे के रूप में लक्ष्मणसिंह डिडोर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां कांग्रेस से टिकट के दावेदार जबस के डा. अभय ऑहरी ने निर्दलीय रूप से मैदान में आकर न नदाविय रूप स मदान में आवर कांग्रेस-भाजपा के समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। इनके अलावा बसावा से संजय भाभर, निर्देतीय नानालाल खराड़ी मैंदान में डटे हर है। यहां 106954 पराप १०६७६६ महिला. १३ अन्य सहित कत

इस सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में है। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस से हवं विजय गेहलीत विधायक है। कांग्रेस ने लगातार तीरसी बार मेहलोत को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा से तीसरी बार पूर्व विधायक समीता वारेल चुनाव लड़ रही है। वैसे ले इस सीट पर जनता दल के मैदान में रहने से हमेशा से त्रिकीणीय संघर्ष की स्थिति रही है, लेकिन इस बार

222 जावरा : कांग्रेस-भाजपा को निर्देशीय की चुनौती इस सीए ए आढ़ प्रवाशी मेनानों है। किंदेशी रूप से मोनानों आप दोगो कोंग्रेसन में इस मेंट पर आवा से जा. प्रमुख दर्शी के खेला शिमाई दिए हैं। राजेंद्र पड़ेवा विषयुक्त है। प्रजय ने इसी जीवनीस्ह का माजव-वाग्रेस से नाराज् बार डा. पांडेय को मैदान में उतारा है. श्रीस से नद चेहरे के रूप में वहार कहार है जा है वह से की विद्या वीरेंट्रेसिंह सोलंकी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां कांग्रेस से वहले हिम्मतसिंह श्रीमाल का नाम तब किया गया था, लेकिन भारी विरोध के बाद सीलंकी को मैदान में ततारा गया । यहां क्रांग्रेस से टिकट के दावेदार करणी सेना परिवार के जीवनसिंह शेरपुर ने

223 आलोट अजा : पूर्व सांसद-विधायक ठोंक रहे ताल

221 सैलाना अजजा : कांग्रेस-भाजपा के साथ जबस का दमखम

इस सीट पर नी प्रत्याशी मैदान में है। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस से मनोज वतमान में इस स्रेट पर कारास स मनाज व्यावना विधायक है। क्रांग्रेस ने जहीं समातार दूसरी बार वादाना को मैदान में उत्तररा है, वहीं भाजपा से पूर्व स्वास्ट वितामणि मालवीय बुनाव लड़ रहे हैं। यहां क्रांग्रेस से पूर्व स्वास्ट व विधायक रहे प्रेमचंद गुड़डू ने निर्दलीय रूप से मैदान में आकर दोनों प्रमुख दलों की

दशरम्बाल आंजाना, आसपा से दिलावर खान, भारतीय स्वर्णिन युग पार्टी से विजयसिंह यादय, निर्देलीय मोहन परिहार, रामेश्वर डाबी चुनावी रण में डटे हुए हैं। कहाँ 118814 पुरुष, 118878 महिला, नी अन्य सहित कुल 237701 मतदाता है। मुश्किलं बढ़ा दी है ।गुड़ड़ का भाजपा-क्रांग्रेस से नाराज पद

जयस के कमलेश्वर डोडियार ने ताकर दिखाकर कांग्रेस-भाजपा की सकते मे

पुरुष, 106315 महिला सहित कुल 210430 मतदाता हैं।

पदाधिकारी व कार्यकर्ता खलकर साथ दे

रहे हैं। इनके अलावा बरुया से

कार्यकर्ता स्कुलकर साथ दे रहे हैं। इनके अलावा आरुपा से गोवर्धन परमार, निदंतीय पुप्पेद सुर्थाक्षी, नागुलाल, लक्ष्मण चंद्रवंशी, प्रहलाद वर्गा, किशोर मालवीय मैदान में है। यहां 113114

मतदाताओं के भरोसे पर खरा उतरना प्राथमिकता : वीरेन्द्रसिंह



आज इन गांवों में करेंगे

जाबरा। क्षेत्र के मतदाता जो भरोसा मुख पर और कांग्रेस पर दिखा रहे हैं, उनके इस भरोसे पर हर हाल में ह, उनक इस भरास पर हर हाल में खरा उतरना मेरी पहली प्राथमिकता रहेंगी। चुनाय जीतने के बाद विभायक में नहीं बल्लिक मेरा हर एक कार्यकर्ता होगा। कार्यकर्ताओं और जावदा को जनता के हर काम को कारना मेरा कर्तव्य है। ग्रामीण को करना मेरा कर्तक है। प्राचीण अर्थना में जो साम्यक्ता मेरे सामने अर्थ हैं, ये सभी मेरी नोट कर ली हैं। दिखायक ब्रस्ते हों उन सभी स्मास्त्रावार्थे का हिन्स क्षारेस ने चचन दिवा हैं, प्राच्छा हैं के स्मास्त्रावार्थे का हमाने जान क्षारेस ने सामन्त्रावार्थ के समस्त्रा अर्तिथ शिक्षकों और अतिथि विव्रतानों को निवासित क्षिया जाएगा। सामता इंडिया में फंसे विधानसभा को जनता के हक को एक-एक पाई लीवनों के लिए संस्था कर्तमा। बात लौटाने के लिए संघर्ष करूंगा। यदि लाद्धन के लिए संबंध करूना। बाद इसके तिए मुझे मेरी खुद की सरकार से भी लड़ाई लड़ता पड़ी तो में उसमें भी पीठे नहीं रहुंगा। यह बात कांग्रेस प्रत्यशी बीरेन्द्रसिंह सोलंको ने युक्कार को

जनसंपर्क

चनाव संचालक हरिनासक चुनाव संचालक हारनारायण अरोडा, कालुराम हरा, ब्लाक कांग्रेस कमेटी अप्यक्ष सुशील कीचट्टा ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी वीरेन्द्रसिंह सोलंकी शनिवार को विश्वानसभा के गाँव शनिष्कः दूधाखेड़ी, धाकरखेड़ी, चिपिया भाकरण्यः व्यागियाः, तारस्थः पिपल्लोदो, हनुमतिबा, पंथमेलको राणस्य गुजर, मोरिया नेना सरसीदा तथ मोयाखेड़ा, सस्सौदा कलालिया में जनसंपर्क करेंगे।

दौरान कही। शुक्रवार को वीरेंद्रसिंह सोलंको के समर्थन में उनकी पत्नी रेखा सोलंको के साथ महिलाओं ने छोटा मालीपुरा, बड़ा मालीपुरा, नया मालीपुरा, भारत कालीनी में

भाजपा के अंत्योदय से कई परिवारों का पक्के आवास का सपना हुआ पूरा



रतलाम। भाजपा प्रत्याशी चेतन्य मालवा में 70-80 वर्ष पूर्व स्तलाम क जो स्थान था, उसे वह फिर से दिलाना

रतत्वाम । भाजपा प्रश्नारा पान कार्याय ने प्राप्त मा भाउरी, वार्ड क्रमांक कार्याय ने प्राप्त मा भाउरी, वार्ड क्रमांक 22 और 17 में पांच स्थानों पर कुक्कड़ समार्च लगा। इस वीचन कार्याय ने आमजन को भाजपा की प्रदेश व नगर सरकार हारा किए गए, विकास कार्यों से अवगात कराया और चविष्य में रतलाम को नगर से

और पव्यय में रतलाम को नगर से
महानगर बनाने का संकरण पवक किया। आम समाग्रे प्राम मधुरी, रतलाम के शंकरणह, करण नगर, होडा चौक देश्यर नगर और चामुंडा मारा पोक देश्यर नगर और चामुंडा मारा पोक देश्यर नगर और चामुंडा अध्यय ने कहा कि भाजपा ने अंत्योदय को साकार करते हुए सर्वहाय वर्ग का विकास किया है। प्रधानगंत्री आवास योजना की कहा से कई पक्के मकान को है। सुख्यमंत्री शिवराजीसंह चौहान द्वारा परवाई जा रही लाङ्गुली बहना योजना से बान आवानिय और चलाई जा रही लाइली बहना योजना से बहनें आत्मनिर्भर और बाजना से बहुन आत्मानमर आर सराकत बनी हैं। उनके जीवन में बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने सबके बारे में सोचा है। रतलाम में प्रधानमंत्री ने मेगा इंडस्टियल पार्क प्रधानमत्रा न मना इंडास्ट्रयल पाक का शिलान्यास किया है औ रातलाम को मालवा का प्रमुख आँडोमिक एवं व्यापारिक केन्द्र बनाने की बात खुद रतलाम आकर कही है। इससे यहाँ के युवाओं को अब काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। महापीर प्रहलाद पटेल, विपानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल ने भी संबोधित किया।

कह सभ को संबंधित करते हुए भाजन प्रत्यक्षी चेतन्य काक्यम । = नर्द्रपनिय विकास के लिए सकारात्मक

> है। दीपावली खुशहाली का पर्व है और एटलेन एक्सप्रेस वे एवं मेगा इंडरिट्यल कारिडोर स्तलाम के लिए खुशहाली लेकर ही आ रहे हैं। यह बात विधायव नतन्य पगरथप न पत्रकार दीप मिर समारोह में कही। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सकारात्मक ग्रेना विकास के लिए सकारात्मक होना जरूरी हैं।दस वधों के विधायक काल में शहर विकास के लिए जितने भी सकारात्मक प्रधास किए है. उनमें सफलता मिली है। इंडस्ट्रीयल कारिडोर 460 करोड़ रुपये का प्रकल्प है, लेकिन इसके शुरू होने तक 75 हजार करोड़ का ओद्योगिक विनियोग होगा और करीच 1 लाख 75 हजार लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है । इससे रतलाम की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। भाजपा सरकार वनने के बाद कोरोना काल के तीन साल के काल खंड में विकास की गति राजी रही। इस दौरान मेडिकल कालेज और उसके अस्पताल का पूरे क्षेत्र को लाभ मिला।

इस दौरान भाजपा जिलाह्यक्ष राजेंद्र इस च राम माजेबा जिलाब्यत राजक सिंह लुनेरा, महापीर प्रहलाद पटेल, आरडीए अध्यक्ष अशोक पौरवाल, निमम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, पूर्व जिलाब्यक्ष कन्हें यालाल मीर्य जिला एवं मंदल प्रदाधिकारी उपस्थित रहे।

वीएलओ ने किया मतदान



मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने में लगे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी भी शासफांदेय अधिकारी व कम्मंबारी भी मुस्तेदी से अपने कार्य में जुटे हुए ही। कोई भी मतदान से बीचत न हो, इसके रिएए सारे प्रवास किया जा रहे हैं। शुक्रवार को तिभागसभा क्षेत्र के सभी भारतान केंड़ों के बीएराओं ने तहसीरा कार्यालय में मतदान किया और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निमाई। इससे पूर्व 80 वार से अधिका के बुतुर्गों ने भी अपने कार्य पर सक्ता मादान दला 80 वर्ष से आलंक के कुनुगा में शह अपने बर्ज पर संकर सतदान दल इस लाई गई सामग्री से मतदान किया। चुनाव कार्य में लगे अनेक कर्मचारों भी मतदान कर चुके हैं। सुक्रवार को बीएलओं ने मतदान किया।

मतदान अधिकार ही नहीं कर्तत्य भी है

नामली। विधानसभा चुनाव में मतदाता सर्वोच्च प्राथमिकता से लोकतंत्र की मजबूती व स्वर्णिम घण के निर्धाण में अपने मनाधिकार का प्रयोग करें। यह संकल्प स्थानीय ज्योति विद्यापीठ के संचालक विजय चीबरी व स्टाफ के शिक्षक/ शिक्षिकाओं द्वारा विद्यालय में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को प्रार्थन के दौरान दिलाया गया। जानकारी

कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा को जनसंपर्क में मिल रहा समर्थन



रतलाम् (नईदुनिया प्रतिनिधि)। रतलाम विधानसभा के कांग्रेस रतलाम विपानसभा के कांग्रेस प्रत्याक्ष परस सकलेका ने गुरवार रात ब्यन्ता बस स्टेंड भीरते पर स्वा को संबोधित किया सभा में दारा ने कहा कि विपायक बताए कि आपने 20 साल में क्या किया। सभा में वर्षा ने कहा कि विपायक बताए कि तताब लिख दो इस सरकार के खिलाक, इतने घोटाले किया। 857000 तो इमने नोटिकाई करें और पंक्तिशा की हमी नम्मिन कलास्टर 2012 में मैंने स्वीकृत करवाया, और चुपिप्रना 18 क्लस्टर 2012 में में स्थीकृत करवाया, और भूमिपुजन 18 अगस्त 2013 को हुआ, जाब में विश्वासक था। सड़कों पर हम पूमते हैं तो हमको कोई बाह बाही नहीं निलाती। 10 गहिल्यों भी सुनना पड़ती हैं। दिल्वीच नगर ब्राइंग्सर, प्रताम नगर क्रि.ज. हमने बन्तवाया। ट्रेन के आगे धरने भी दिए। जो काम विशायक गिनवा रहे हैं यह सब्द मेरे कार्यकाल के हैं। आम सभा के अंत में लोगों ने हमारा विशासक कैसा हो पास्स सकलेगा जैसा हो के नार्र हमारा

विभावक कसी हा परिस सकलाया जैसा हो के नारे लगाए। इससे पहले युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट ने कहा कि क्या अभी तक रतलाम के युवाओं के लिए विधायक में कोई रोजगार क (ल) विश्वयक्ष न काई राजा। इपलब्ध करवाया हैं? वाई नंबर 3 में विधायक को जामून देने वाली एक खुड़ी अम्मा महापौर को शबरी जैसी लग रही थी। वे मर्यादा

नह्युनेथा पुरुषेत्तम औराम से विषायक की जुलना कर रहे हैं अगर विषायक राम होते तो उसी खुलूने गता के रामों में बेटकर जमून खोती। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, स्वातिकाल चर्मा, रामनिकांत, हिम्मत जीववार, सुजात उपाध्यक, सेंद्र वर्षाया, प्राचीत उपाध्यक, संस्त्र पांद्रज शामी क्यांस्त्र, कराईह, बसांत्र पांद्रज शामी क्यांस्त्र, कराईह, जयबार, सुजात उपाया, स्थात कपुर जैती, प्रभु खडीह, वस्तंत पाइवा, शादी कांग्रेस के पदाधिकारी मंध्यासीन रहे। कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा ने गुक्तवार सुबह वार्ड 37 व 27 तथा शाम को वार्ड क्रांचेक 38 में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के वीतन दादा ने खराब सडुके देखी क दारान दादा न खंपाब सङ्क दख और दूसरे के कंपे पर लाब रखकर कनसंपर्क किया। लोगों ने खराब सङ्क और मूलपूत सुविधाओं की समस्याएं बताई तो दादा ने कहा प्रदेश में कांग्रेस की स्रस्कार आ रही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ छी है। आप हमें जिलाओं हम आपको राभी पहलपुत सुविधाएं देंगे। जनसंपर्क हनुमान मंदिर आहित्ससं करलोनों से प्रारंप होकर अधित गरिसर, समाना परिसर, जन पारत नाम, पटेल व्यवही, काजीपुत, थोई मोहल्ला, हरिजन बस्ती, कसाई मंद्री, शेतनीपुत, मरका मस्तिय-इसा पार्ट के घर पर समाय-हुआ। शाम को बाहीद शेरानी के घर से पंडारी गरी, थालरिया वालर, मोधीपुत, शिली, थालरिया वालस, मोधीपुत, शिली, थालरिया वालस,

से भंडारो गली, भावरिया बाजार, मोचीपुरा, स्थिगीपुरा, जनि गली, हरिजन बस्ती, काजीपुरा, हाकिम बाड़ा में समापन हुआ।

जावत विधानसभा क्षेत्र में जनसंघकं करते हुए निर्देशीय प्रत्याची जीवनरिक्ष चेरपुर । 🔍 नईदुनिय इन गांवों में देर रात तक

धर्म-जाति की राजनीति नहीं

करेंगे : जीवनसिंह

जावरा। निर्देलीय प्रत्याणी जीवनसिंह शेरपुर ने शुक्रवार को एक दर्जन से अधिक गांव में जनसंपर्क कर मनदाताओं से बोट जनसंपर्क केर मरावाराओं से बाट मांगे। जनसंपर्क के दौरान गांव सरसीदा व अन्य गांवों में घर के बाहर आटोरिक्शा की रंगोली बनाई ाजा म घर के बाहर अटोरिक्शा को रोगेशी बनाई में प्राचित्र को रोगेशी बनाई मंद्री आजपा अल्पसंद्यक मोची के पूर्व जिल्लाभ्यस गुरुका हाजी, पूर्व प्रपंद पुरुका महें, पूर्व प्रपंद प्रताम की अन् महिक ने भाजपा छोड़कर निरंतीय प्रत्यभी जीननिर्मेह सेरपुर का समर्थन किया।

निदंलीय प्रत्याशी जीवनसिंह ानदलाय प्रत्याशा जावनासक शेरपुर ने कहा आप सब्ध ने मेरे ऊपर जो विश्वास जतावा, उसके हम कभी खराब नहीं होने देंगे। आपने ने किसी दल को मेरे लिए छोड़ा है। अब हम मर जाएंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। हम कभी भी भेटपाव वाली राजनीति

किया जनसंपर्क

मातामेलकी, सरसीदा, मोखाखेडा, किलगारी, खेला, रिखा गुजर, मांडवी, आळोली, गोंदी शंकर, नेताबली, रिंगनोद में जनसंपर्क नतावला, मरानाद में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के रौरान बढ़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक साथ रहे। जीवनसिंह शानिवाद को हरियरखेड़ा, बारखेड़ा खेड़ा, अयाना, आजमपुर डोडिया, बोरखेड़ा व अन्य गांवों में बारखंडन करेंगे।

नहीं करेंगे। हमारे लिए सब बराबर नहीं करेगा हमार राष्ट्र सब बराबर है। जितना विकास करना है करेंगे, लेकिन बर्म-जाति को राजनीति नहीं करेंगे और न किसी को करने देंगे। सब मिलकर जावरा विधानसभा का विकास करेंगे।

D.P. WIRES LIMITED

122130.9 5532.5 1216.00 1485.45 1204.76 5532.5 908.05 1111.0 902.99 4101.4 906.05 1111.0 902.99 4104.2 1356.8 17790.3 30.2 6.68

कर मतदाताओं का आशाबाद लिया। कई जगह डामर को केले से

सिल्कर देश हित के लिए अधिक सं अधिक संख्या में मतदान करने को अपील को ग्रंह। चंडरलेखर आजाद मंडल के मूंचीपड़ा सं जनसंपकं शुरू कर गुल्तिपाड़ा, सरवनीखुरं, पाटलो, गुल्तानिया, पंचपाड़ा, विकार्डीत, वाक्या, सेमलपाड़ा, रिंग्डीड से वरोठ, रामपुरिया, पलस्तीड़ो, कोते हुए रुल्हुखालों में जनसंपर्क कर मतदाताओं का आशीवांद किया कई जनता हमार को केले से

ाटवा जा रहा है। शुक्रशार को जनसंपर्क के दौरान करें। डामर को केले से शुक्रशार को जनसंपर्क के दौरान करें है। एन करते हुए लाइली बडाने से मधुरालाल डामर ने मोशाल जाकर मुख्यमंत्री का संदेश पत्र भी बितरित ग्रह्म की पूजा कर गुड़ खिलाया। किया।

डामर ने इप्का कंपनी के कर्मचारियों से मिलकर की मतदान की अपील



कांग्रेस राज में मप्र में न रोजगार

था और न निवेश : डा. पांडेय

जाबरा। कांग्रेस के राज मध्यप्रदेश में न रोजगार था और प्रस्थाप्रदेश में न तंशार था आर न निवेश। पिछड़े राज्यों को श्रेणी में म्ब्स्यप्रदेश को देखा जाता था। श्रीशाणिक पिकास दर नकारातम्ब थी। न अयोस्टेचन का ता था और न सुविषाओं का, इसलिए निवेशक आने से कराराते थे। प्रदेश

लाख से अधिक लोगों को रोजगार क्यां। यह बात भाजपा प्रत्याह हा राजेंड पाईच में हुम्बेड मंडल के विभिन्न ग्रामों व जावरा नगर में जनसंपर्क के दौरान कही। भाजपा विद्यानसभा प्रभारी महेश सोनी, मीडिया संबोजक प्रफुल्ल जैन, रजत सोनी ने बताया कि डा. पाईख रजत साना न ब्याचाया के डा पांडय ने गुरुवार को रणायरा, म्यावरा, न्विपया, रानीगांव व जावरा नगर पिपलोदा रोड चौराहा, बस स्टैंड, विवेकानंद कालोनी, तिलक नगर, सांचरिया कालोनी, खारीबाल सावारवा कालाना, खारावाल कालोनी, महाराणा प्रताप बस्ती आदि में जनसंपर्क किया। जगह-जगह डा. पाँडेय का स्वागत-सम्मान किया गया।

जनसंपर्क में भाजपा प्रत्याशी मञ्जूराताल डामर के साथ लाइली वहने ।० नईदुनिया रतलाम। भाजपा के रतलाम ग्रामीण इंप्का कंपनी के कर्मचारियों से प्रत्याशी मधुरालाल डापर गांव-गांव मिलकर देश हित के लिए अधिक

रतत्वाम भाजपा क रत्तवाम ग्रामाण स्वार्णी मधुरालाल झार गाँव-गाँव धूम कर जनता का आशीवांद्र ले रहे हैं। वे ग्रामीणजनों से भाजपा झार जनता के हित में किए गए कहाँ के बारे में बताकर जनसमर्थन मांग रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान गाँवों में डामर का जगह-जगह पुग्पवर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। महिलाओं और बालिकाओं द्वारा तिलक किया गया। डामर को युवाओं, महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। साथ ही बुजुर्गों द्वारा विजयशी का आशीबांद

Date: November 09, 2023 PRAVEEN KATARIA (MANAGING DIRECTOR)
Place: Ratiam DINNO - 6008883

जनसमर्थन से घबरा गई भाजपा और कांग्रेस : गुडडु

CL ISS I® नईदनिय

आलोट। विधानसभा क्षेत्र में मैं जहां भी जनसंपर्क के लिए जा रहा हं, वहां के नागरिकों का समर्थन हुं, वहा क नागारको का समाधन बढ़ता जा रहा है। इसके करण कांग्रेस और भाजपा घथरा गई है। किसानों द्वारा खरोटे गए निजी ट्रांसफर्मर भी जब्दा करने का कार्य किया जा रहा है। किसान विद्युत समस्या से परेशान हैं और अपनी हो रही है। प्रशासन दबाव में कार्य कर रहा है। यह बात प्रेमचंद गुढ़हू ने जनसंपर्क के दौरान नुबकड़ सभा में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी दल को स्पन्ट ब्रहुमत

नहीं मिल रहा है। इस बार निदंलीयों की संख्या ज्यादा स्तेगा और निर्देलीय विश्वास्त्रक ही सरकार का फैस्ताना करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकला को आपने रेखा है। मैंने कमें भी भाजपा और अहम कार्यकर्ताओं में फंके नहीं समझा, जी भी मेरे पास आया, उसका समा-किया। क्षेत्र में किसान कंजर समस्या से बोहत परेशान है। अगर आपका आसीवांद मुझे मिला तो में आपका समस्या दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं बादा नहीं कमा उनके प्रयास करूंगा। मैं बादा नहीं कमा उनके प्रयास करूंगा। मैं बादा नहीं संख्या ज्यादा रहेगी और जो भी मेरे पास आया, उसका काम निर्मेशक आने से करावरी थे। प्रदेश किया। केत्र में किसान कंजर में बेरोजगरी चरम पर थी। समस्या से बेरात परेशान ही। आपर अनिवास सुविवास न मिलने के आपका आणीवार मुझे मिला तो में साम अपना अगिवार मुझे मिला तो में साम अपना स्वास नहीं काम करके दिखाने चाला है। गुरु स्वते न का कर के दिखाने चाला है। गुरु स्वते न का कर के दिखाने चाला है। गुरु स्वते न का कर के प्रदेश न केत्र रहा थी। बुवाओं को काम करके दिखाने चाला है। गुरु स्वते न का स्वते मार्थ प्रवास कर रही थी। प्रवास मेरे का मार्थ मेरे साम स्वति मार्थ प्रवास कर रही थी। जानमा सरकार न निसंच और जनसंपर्क किया।



MAHESHWARI LOGISTICS LIMITED

CIN: L60232GJ2006PLC049224

Address: MLL House, Shed No. A2-3/2, Opp. UPL, 1st Phase, GIDC, Vapi-396195,
Phone No. 0260-2431024, Email: info@mlpl.biz, Website: www.mlpl.biz

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2023

| (Amount in Lakhs Except EPS) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Sr. | Particulars | | Standalone | | C | Consolidated | | | | | |
| No. | T di dodidi o | Quarte | r Ended | Half Year Ended | Quarte | Quarter Ended | | | | | |
| | | 30-09-2023 Un Audited | 30-09-2022 Un Audited | 30-09-2023 Un Audited | 30-09-2023 Un Audited | 30-09-2022 Un Audited | 30-09-2023 Un Audited | | | | |
| 1 | Total Income from Operations | 23,442.65 | 28,247.20 | 50,196.95 | 23,953.01 | 27,799.45 | 51,078.67 | | | | |
| 2 | Earnings before Interest Depreciation and Tax (EBIDTA) | 1,410.93 | 1,512.59 | 2,818.39 | 1,490.41 | 1,509.85 | 2,914.24 | | | | |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 509.15 | 615.22 | 981.35 | 586.72 | 612.48 | 1,074.79 | | | | |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) | 509.15 | 615.22 | 981.35 | 586.72 | 612.48 | 1,074.79 | | | | |
| 5 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 381.90 | 458.91 | 686.83 | 423.05 | 460.20 | 737.97 | | | | |
| 6 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 399.71 | 463.63 | 698.54 | 440.88 | 464.92 | 749.69 | | | | |
| 7 | Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- per Share) | 2,959.72 | 2,959.72 | 2,959.72 | 2,959.72 | 2,959.72 | 2,959.72 | | | | |
| 8 | Earnings per equity share | | | | | | | | | | |
| | (a) Basic | 1.28 | 1.55 | 2.32 | 1.33 | 1.55 | 2.47 | | | | |
| | (b) Diluted | 1.28 | 1.55 | 2.32 | 1.33 | 1.55 | 2.47 | | | | |

Place: Vapi

- The above Audited Financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on 10th November, 2023.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listin and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarterly results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at www.nseindia.com and the Company's website at www.mlpl.biz.
- Figures have been regrouped wherever necessary.

On behalf of the Board of Directors of MAHESHWARI LOGISTICS LIMITED Varun Kabra Chairman and Managing Director DIN: 02760600 SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED SURYODAY CIN: L65923MH2008PLC261472

Sharda Terraces. Plot No. 65, Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400 614. https://www.suryodaybank.com, Tel.: (022)4043 5800

| UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023 ₹ in Lakhs | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------|--------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | SEPTEMB | ER 30, 2023 | 5 | | ₹ in Lakhs | | | | | | |
| Sr. No. | Particulars | Quarte | r ended | Half year ended | Year ended | | | | | | |
| | | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2023 | 31.03.2023 | | | | | | |
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited | | | | | | |
| 1 | Total Income from operations | 42,699 | 30,570 | 83,612 | 1,28,110 | | | | | | |
| 2 | Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, | 0.700 | 4 000 | 40.440 | 40.000 | | | | | | |
| 3 | Exceptional and Extra-ordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before tax | 6,768 | 1,696 | 13,110 | 10,086 | | | | | | |
| ٥ | (After Exceptional and Extra-ordinary items) | 6,768 | 1.696 | 13,110 | 10.086 | | | | | | |
| 4 | Net Profit/(Loss) for the period after tax | , | · ' | | · ' | | | | | | |
| _ | (After Exceptional and Extra-ordinary items) | 5,030 | 1,300 | 9,790 | 7,770 | | | | | | |
| 5 | Total comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period | | | | | | | | | | |
| | (after tax) and other comprehensive | Refer | Refer | Refer | Refer | | | | | | |
| | income (after tax)} | note 2 | note 2 | note 2 | note 2 | | | | | | |
| 6 7 | Paid up Equity Share Capital | 10,616 | 10,616 | 10,616 | 10,616 | | | | | | |
| / | Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet | | | | | | | | | | |
| | of the previous year | *1,47,857 | #1,39,896 | *1,47,857 | ±1.47.857 | | | | | | |
| 8 | Securities Premium Account | 1,18,658 | 1,18,714 | 1,18,658 | 1,18,653 | | | | | | |
| 9 | Net Worth | 1,51,781 | 1,38,621 | 1,51,781 | 1,42,917 | | | | | | |
| 10 11 | Outstanding Debt Outstanding Redeemable Preference | 2,47,990 | 2,34,999 | 2,47,990 | 2,76,541 | | | | | | |
| | Shares | | - | | | | | | | | |
| 12 | Debt Equity Ratio | 1.47 | 1.54 | 1.47 | 1.75 | | | | | | |
| 13 | Earnings per share (of ₹10/- each) | | | | | | | | | | |
| | (for continuing and discounted operations)- {(before and after exceptional items)}** | | | | | | | | | | |
| | (i) Basic | 4.74 | 1.22 | 9.22 | 7.32 | | | | | | |
| | (ii) Diluted | 4.61 | 1.22 | 9.09 | 7.32 | | | | | | |
| 14 | Capital Redemption Reserve | - | - | - | - | | | | | | |
| 15 | Debenture Redemption Reserve | - | - | | | | | | | | |

* As at March 31, 2023 ** As at March 31, 2022 * Figures for the respective quarter are not annualized.

The above is an extract of the detailed format of the period ended results filed with the stock exchange under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63 (2) of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the period ended financial results is available on the stock exchange websites BSE: https://www.nseindia.com and Bank's website: https://www.nseindia.com and Bank's website:

Information related to the total comprehensive income and other comprehensive income are n furnished as Ind AS is not yet made applicable to the Bank.

For Suryoday Small Finance Bank Limited

Baskar Babu Ramachandra Managing Director and CEC DIN: 02303132 **BRAWN BIOTECH LIMITED**

CIN:L74899DL1985PLC022468 REGD. OFFICE: C-64, Lajpat Nagar-1, New Delhi 110024

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended 30 $^{\circ}$ September 2023

| | | Standalone | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|--|
| SI. | | G | Quarter Ende | d | Half-year | Year Ended | | | |
| No. | Particulars | 30-Sep-23 | 30-Jun-23 | 30-Sep-22 | 30-Sep-23 | 30-Sep-22 | 31-Mar-23 | | |
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited | | |
| 1 | Total income from operation | 291.90 | 728.67 | 777.00 | 1,020.57 | 1,117.23 | 2,223.99 | | |
| 2 | Net Profit/(Loss) from ordinary activities after ta | x (42.27) | (17.24) | (35.42) | (59.50) | (22.30) | (86.81) | | |
| 3 | Net Profit/(Loss) for the period after tax | (42.27) | (17.24) | (35.42) | (59.50) | (22.30) | (86.81) | | |
| | (after extraordinary items) | | | | | | | | |
| 4 | Total Comprehensive Income for the period | (42.80) | (17.29) | (37.40) | (60.09) | (24.59) | (91.11) | | |
| | [Comprising Profit/(Loss) for the period | | | | | | | | |
| | (after tax) and Other Comprehensive Income] | | | | | | | | |
| 5 | Equity Share Capital | 300.03 | 300.03 | 300.03 | 300.03 | 300.03 | 300.03 | | |
| 6 | Reserve (excluding Revaluation Reserves as | | | | | | | | |
| | shown in the balance sheet of previos year | | | | | | | | |
| 7 | Earning per share (before extraordinary items) | | | | | | | | |
| | (not annualised): (of Rs. 10 each) | | | | | | | | |
| | (a) Basic (Rs.) | -1.43 | -0.58 | -1.25 | -2.00 | -0.82 | -3.04 | | |
| | (b) Diluted (Rs.) | -1.43 | -0.58 | -1.25 | -2.00 | -0.82 | -3.04 | | |
| 8 | Earning per share (after extraordinary items) | | | | | | | | |
| | (not annualised): (of Rs. 10 each) | | | | | | | | |
| | (a) Basic (Rs.) | (1.43) | (0.58) | (1.25) | (2.00) | (0.82) | (3.04) | | |
| | (b) Diluted (Rs.) | -1.43 | -0.58 | -1.25 | -2.00 | -0.82 | -3.04 | | |

NOTES:

period figures.

- 1- The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly financial Results filed with the Stock Exhanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly financial results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.brawnbiotech.com).
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10-11-2023.
- The Financials have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (Ins-AS) to the extent applicable. The Company has for the first time adopted IND-AS beginning 01st April 2017 with transition date of 01st April, 2016
- The Company is engaged primarily in the business of Pharmaceuticals. Accordingly, there is no separate reportable segments

as per Ind-AS 108 dealing with Operating Segments. - Previous year/period figures have been regrouped/rearranged, wherever necessary to make them comparable with the curren

Indian Overseas Bank Zadika Central Office: 763, Anna Salai, Chennai 600 002 Anni Manots

NOTICE TO BOND HOLDERS-EXERCISING OF CALL OPTION Unsecured, Non-Convertible, Redeemable, Basel III Compliant Tier II Bonds

ISIN: INE565A09264 Notice is hereby given to the Bond Holders of the Indian Overseas Bank

(the Bank) that the Bank has decided to exercise "Call option" and redeen

the entire amount for the aforesaid Bonds on completion of the five years period from the deemed date of allotment i.e., December 10, 2018, ir

terms of the Information Memorandum dated December 05, 2018. The Bank has obtained necessary approval from the Reserve Bank of India (RBI) in this regard vide RBI's letter dated October 27, 2023. Details of the

INE565A09264

Rs.300 crore Rs.10 lakhs per Bond

11.70 % p.a.

Allotment 10.12.2018

10.12.2028 10.12.2023(Sunday)

08.12.2023

and Sunday) 22.11.2023

09.12.2022

The Bonds, at par, along with the applicable interest payable from the lasinterest paid till one day prior to the call option date i.e., December 10, 2023 will be paid on December 08, 2023 (Actual date of Payment) after deducting applicable Tax deducted at source (TDS) to the Bond Holders, whose name will appear in the Register of Bond Holders on November 22, 2023 (the Record date). Such payment on call option date will be a legal discharge o

The concerned Bond Holders are requested to take note of the above and update their correct Bank account details with their respective Depositors Participants, if necessary, before November 22, 2023 (Record Date). For further queries/information, if any, please call the Bank's Investor Relations Cell, Phone 044-7172 9791/044-2888 9360 or send email at

120 months from the Deemed Date of

(09.12.2023 and 10.12.2023 are

holidays on account of Second Saturday

S P Mahesh Kumar General Manager & CFO

For and on behalf of Boar For Brawn Biotech Limited

Brij Raj Gupta Place : Delhi Date: 10-11-2023 DIN NO. 00974969

Bond is given below:

ISIN

Issue Size

Face Value

Coupon Rate

Call Option Date

Deemed Date of Allotment Redemption Date

Actual Date of Payment

Last Interest paid upto

investor@iobnet.co.in.

Date: 10.11.2023

Frequency of Interest Payment | Annually

the liability of the Bank towards the Bond Holders.



Apollo Micro Systems Limited (CIN: L72200TG1997PLC026556)

Date: November 09, 2023

Registered office: Plot No. 128/A, Road No. 12, BEL Road, IDA Mallapur, Hyderabad - 500076, Telangana.

Telephone: +91 40 27167000 - 99; Fax: +91 40 2715 0820; E-mail: cs@apollo-micro.com; Website: www.apollo-micro.com

| | | | | All am | nounts in lakhs excep | ot otherwise stated | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|
| | | Quarter ended | | Six month | Six months ended | | | |
| Particulars | 30.09.2023 (UnAudited) | 30.06.2023 (UnAudited) | 30.09.2022 (UnAudited) | 30.09.2023 (UnAudited) | 30.09.2022 (UnAudited) | 31.03.2023 (Audited) | | |
| Total Revenue from Operations | 8,740.84 | 5,791.32 | 5,641.28 | 14,532.16 | 10,880.73 | 29,834.98 | | |
| Profit before exceptional items & tax | 872.48 | 283.09 | 356.12 | 1,155.57 | 847.70 | 3,217.96 | | |
| Net Profit for the period before tax | 872.48 | 283.09 | 356.12 | 1,155.57 | 847.70 | 2,895.73 | | |
| Net Profit for the period after tax | 655.85 | 165.36 | 163.73 | 821.21 | 492.40 | 1,873.75 | | |
| Total comprehensive income for the period | 655.85 | 165.36 | 163.73 | 821.21 | 492.40 | 1,872.23 | | |
| Paid up equity share capital | 2,329.72 | 2,306.39 | 2,076.39 | 2,329.72 | 2,076.39 | 2,076.39 | | |
| Other equity | | | | | | 40,387.36 | | |
| Earnings per share | (Face Value | (Face Value | | |
| | Rs.1/-each) | Rs.1/- each) | Rs.10/- each) | Rs.1/- each) | Rs.10/- each) | Rs.10/- each) | | |
| (a) Basic | 0.29 | 0.08 | 0.79 | 0.37 | 2.37 | 9.02 | | |
| (a) Diluted | 0.22 | 0.06 | 0.79 | 0.28 | 2.37 | 6.11 | | |

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2023

Key numbers of Unaudited Standalone Results of the Company are as under:-

| | | Quarter ended | | Six month | Year ended | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Particulars Particulars | 30.09.2023 (UnAudited) | 30.06.2023 (UnAudited) | 30.09.2022 (UnAudited) | 30.09.2023 (UnAudited) | 30.09.2022 (UnAudited) | 31.03.2023 (Audited) |
| Total Revenue from Operations | 8,757.49 | 5,805.97 | 5,239.45 | 14,563.46 | 10,880.73 | 29,880.54 |
| Profit before exceptional items & tax | 889.27 | 298.46 | 491.84 | 1,187.73 | 848.09 | 3,266.25 |
| Profit before tax | 889.27 | 298.46 | 491.84 | 1,187.73 | 848.09 | 2,944.02 |
| Profit after tax | 662.46 | 180.51 | 328.80 | 842.97 | 492.67 | 1,906.79 |
| Total Comprehensive income | 662.46 | 180.51 | 328.80 | 842.97 | 492.67 | 1,905.28 |
| Paid up equity share capital | 2,329.72 | 2,306.39 | 2,076.39 | 2,329.72 | 2,076.39 | 2,076.39 |
| Other equity | | | | | | 36,304.79 |
| Earnings per share | (Face Value | (Face Value |
| | Rs.1/- each) | Rs.1/- each) | Rs.10/- each) | Rs.1/- each) | Rs.10/- each) | Rs.10/- each) |
| (a) Basic | 0.30 | 0.08 | 1.58 | 0.38 | 2.37 | 9.18 |
| (a) Diluted | 0.22 | 0.06 | 1.58 | 0.28 | 2.37 | 6.22 |

Notes: 1. The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and SEBI circular dated 5 th July, 2016.

2. The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results for the quarter and six months ended 30 September, 2023 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results (standalone and consolidated) for the quarter and six months ended 30 September 2023 is available on the Company's website i.e. www.apollo-micro.com under Investor Information section and on the stock exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For and on behalf of Apollo Micro Systems Limited Sd/

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad

Date: 10th November, 2023

Where the best is yet to come

Rukhya Parveen

Technocraft Industries (India) Limited

Registered Office: Technocraft House, A-25, Road No 3, MIDC Industrial Estate, Andheri (East), Mumbai-93

Tel: 4098 2222/0002; Fax No. 2835 6559; CIN No. L28120MH1992PLC069252 E-mail: investor@technocraftgroup.com; website: www.technocraftgroup.com

Extract of the Standalone & Consolidated Un Audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September 2023 ₹ in Lacs except otherwise stated

| | | STANDALONE | | | | | | | CONSC | DLIDATED | • | | |
|------------|---|---|--------|---|--------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| Sr. No. | Particulars Particulars | Quarter Ended 30.09.2023 Un -Audited | | Quarter Ended 30.06.2023 Un -Audited | | Half Year Ended 30.09.2022 Un -Audited | Year Ended 31.03.2023 Audited | Quarter Ended 30.09.2023 Un -Audited | Quarter Ended 30.09.2022 Un -Audited | Quarter Ended 30.06.2023 Un -Audited | Half Year Ended 30.09.2023 Un -Audited | Half Year Ended 30.09.2022 Un -Audited | Year Ended 31.03.2023 Audited |
| 1 | Total Income from Operations | 36,051 | 47,985 | 43,133 | 79,184 | 96,031 | 182,509 | 51,990 | 47,632 | 55,651 | 107,641 | 101,503 | 198,453 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period | | | | | | | | | | | | |
| | (before Tax, Exceptional/ Extraordinary items) | | | | | | | | | | | | |
| | from Continuing Operations | 5,517 | 6,776 | 6,442 | 11,959 | 12,430 | 24,776 | 9,248 | 8,691 | 11,778 | 21,026 | 17,866 | 36,178 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period after Tax | | | | | | | | | | | | |
| | (after Exceptional/ Extraordinary items) from | | | | | | | | | | | | |
| | Continuing Operations | 4,401 | 5,100 | 4,787 | 9,188 | 9,360 | 18,644 | 7,017 | 6,563 | 9,064 | 16,081 | 13,724 | 27,454 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax) | | | | | | | | | | | | |
| | from Discontinued Operations | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 5 | Net Profit / (Loss) for the period (after Tax) | | | | | | | | | | | | |
| | from Discontinued Operations | - | - | - | - | 374 | 374 | - | - | - | - | 374 | 374 |
| 6 | Total Comprehensive Income for the period | | | | | | | | | | | | |
| | [Comprising Profit/ (Loss) for the Period (after tax) | | | | | | | | | | | | |
| | and other comprehensive income(after tax)] | 4,406 | 5,044 | 4,792 | 9,198 | 9,621 | 19,038 | 7,195 | 6,370 | 8,796 | 15,991 | 13,842 | 27,259 |
| 7 | Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- per Share) | 2,296 | 2,446 | 2,296 | 2,296 | 2,446 | 2,296 | 2,296 | 2,446 | 2,296 | 2,296 | 2,446 | 2,296 |
| 8 | Earning Per Share (of ₹ 10/-each) | | | | | | | | | | | | |
| | For Continuing Operations-Basic and Diluted (in ₹) | 19.16 | 20.85 | 20.85 | 40.01 | 38.26 | 77.47 | 28.73 | 25.75 | 37.05 | 65.78 | 53.33 | 109.43 |
| 9 | Earning Per Share (of ₹ 10/-each) | | | | | | | | | | | | |
| | For Discontinued Operations-Basic and Diluted (in ₹) | - | - | - | - | 1.53 | 1.55 | - | - | - | - | 1.53 | 1.55 |
| 10 | Earning Per Share (of ₹ 10/-each) | | | | | | | | | | | | |
| | For Continuing & Discontinued Operations | | | | | | | | | | | | |
| | -Basic and Diluted (in ₹) | 19.16 | 20.85 | 20.85 | 40.01 | 39.79 | 79.02 | 28.73 | 25.75 | 37.05 | 65.78 | 54.86 | 110.98 |

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of the Financial Results filed with the Stock Excahnges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obiligations and Disclosure Requirements Regulations 2015. The full format of the said Financial Results are available on the Stock Exchange's websites on www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.technocraftgroup.com
- The above Financial Results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 10th November 2023.

For Technocraft Industries (India) Limited

Registered Office: 16-18A, Industrial Estate, Ratlam (M.P.) – 457001 Website: www.dpwires.co.in , E-Mail : investors@dpwires.co.in EXTRACT OF FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2023

| | | | (Rs. in Lakh except EPS) | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|---------------------|--|--|--|
| Particulars | 30th September, 2023 | 30th June, 2023 | 30th September,` 2022 | 31st March, 2023 | | | |
| | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited | | | |
| Total Income from Operations | 27648.82 | 26739.01 | 28507.36 | 122130.95 | | | |
| Net Profit for the period (before Tax and Exceptional item) | 1216.00 | 1485.45 | 1204.76 | 5532.57 | | | |
| Net Profit for the period before tax (after Exceptional item) | 1216.00 | 1485.45 | 1204.76 | 5532.57 | | | |
| Net Profit for the period after tax (after Exceptional item) | 906.05 | 1111.01 | 902.99 | 4101.42 | | | |
| Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 906.05 | 1111.01 | 902.99 | 4104.21 | | | |
| Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each) | 1356.80 | 1356.80 | 1356.80 | 1356.80 | | | |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve as per the audited Balance Sheet of the previous year) | - | - | - | 17790.38 | | | |
| Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) | - | - | | - | | | |
| Basic: (not annualized for the quarter ended) | 6.68 | 8.19 | 6.66 | 30.23 | | | |
| Diluted: (not annualized for the quarter ended) | 6.68 | 8.19 | 6.66 | 30.23 | | | |
| | Total Income from Operations Net Profit for the period (before Tax and Exceptional item) Net Profit for the period before tax (after Exceptional item) Net Profit for the period after tax (after Exceptional item) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each) Reserves (excluding Revaluation Reserve as per the audited Balance Sheet of the previous year) Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic: (not annualized for the quarter ended) Diluted: (not annualized for | Particulars September, 2023 Unaudited Total Income from Operations 27648.82 Net Profit for the period (before Tax and Exceptional item) Net Profit for the period before tax (after Exceptional item) 1216.00 Net Profit for the period defore tax (after Exceptional item) Net Profit for the period after tax (after Exceptional item) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each) Reserves (excluding Revaluation Reserve as per the audited Balance Sheet of the previous year) Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic: (not annualized for the quarter ended) Diluted: (not annualized for | Particulars | Particulars | | | |

- lote: 1. The above financial is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the National Stock Exchange of India Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the guarter ended 30th September, 2023 are available on the Website of NSE & BSE at www.nseindia.com & www.bseindia.com and Company's website at www.dpwires.co.in
- The above financial results have been prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015(As amended), including relevant circulars issued by the SEBI from time to time

For, D. P. WIRES LIMITED

Date: November 09, 2023 PRAVEEN KATARIA (MANAGING DIRECTOR) Place: Ratlam DINNO. - 00088633

Place: Mumbai Dated: 10th November 2023 Sudarshan Kumar Saraf

(Co-Chairman & Managing Director) (DIN NO. 00035799)